

लोहरदगा में नौ सौ लीटर नकली शराब जब्त



Publish Date: Tue, 23 Mar 2021 10:13 PM (IST) Author: **Jagran**

- जब्त शराब की कीमत लगभग नौ लाख रुपये - कैरो के लैम्पस भवन में नकली शराब बनाने का चल रहा

- जब्त शराब की कीमत लगभग नौ लाख रुपये

- कैरो के लैम्पस भवन में नकली शराब बनाने का चल रहा था खेल

- कुडू थाना पुलिस ने की कार्रवाई, एक आरोपित मौके से हुआ गिरफ्तार

- गुप्त सूचना पर कुडू थाना पुलिस ने कैरो पहुंच कर की कार्रवाई

फोटो संख्या- 24 से 26

जागरण न्यूज नेटवर्क, लोहरदगा : लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के तोड़ांग लैम्पस में नकली शराब बनाने का खेल चल रहा था। लोहरदगा जिले के कुडू थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कैरो थाना क्षेत्र के तोड़ांग लैम्पस में छापेमारी कर लगभग नौ सौ लीटर नकली शराब जब्त किया है। साथ ही शराब परिवहन में उपयोग में लाए जाने वाले एक टैंपो को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने इस मामले में तोड़ांग गांव निवासी संजय महली को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद शराब को कैरो थाना पुलिस के जिम्मे दे दिया गया है। मामले में रंजित लकड़ा नामक एक व्यक्ति की भूमिका सामने आ रही है। जो मौके से फरार हो गया है। पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है। बरामद शराब की कीमत लगभग नौ लाख रुपये बताई जा रही है। बताया जाता है कि कुडू थाना प्रभारी अनिल उरांव को गुप्त सूचना मिली थी कि कैरो थाना क्षेत्र के तोड़ांग लैम्पस में नकली शराब बनाने का काम किया जा रहा है। इस काम को रंजित लकड़ा और संजय महली नामक युवक अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद कुडू थाना प्रभारी ने मामले से वरीय अधिकारियों को सूचित करते हुए टीम के साथ तोड़ांग गांव पहुंच कर छापेमारी की। पुलिस टीम ने लैम्पस भवन को खोला तो पुलिस के होश उड़ गए। लैम्पस भवन में लगभग नौ सौ लीटर नकली शराब रखा हुआ था। इसके अलावे सैकड़ों लीटर शराब बनाने का सामान भी था। किंग गोल्ड, रॉयल स्टैग, ब्लू रॉक सहित कई शराब ब्रांड के नकली शराब बनाए और बेचे जा रहे थे। स्थिति से स्पष्ट हो रहा था कि लंबे समय से यह खेल जारी था। हैरान करने वाली बात यह थी कि कैरो थाना पुलिस को उसकी भनक भी न थी। पुलिस की टीम ने मौके से संजय महली नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावे नकली शराब बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। लोहरदगा में कुडू के बाद कैरो थाना क्षेत्र में इतनी अधिक मात्रा में नकली शराब बनाने के मामले का खुलासा हुआ है। नकली शराब बनाने और बेचने के मामले में लोहरदगा के कुडू से सटे इलाकों में रोकथाम को लेकर कुडू थाना पुलिस की कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

Source: <https://www.jagran.com/jharkhand/lohardaga-nakli-sharab-news-21493320.html>